

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ने अपने पहले एक्सप्लोर ब्रैम्पटन यूथ पास की शुरुआत की

नया पास, ब्रैम्पटन के युवाओं के लिए ब्रैम्पटन ट्रांज़िट पर मुफ्त किराए और ब्रैम्पटन रेक्रिएशन के चुनिंदा प्रोग्रामों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपने, एक्सप्लोर ब्रैम्पटन यूथ पास (Explore Brampton Youth Pass) पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की है।

इस पास से, 12 से 16 वर्ष के उन युवाओं की, जो ब्रैम्पटन के निवासी हैं, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) पर मुफ्त किराए और 1 जुलाई से 5 सितम्बर, 2022 तक, ब्रैम्पटन रेक्रिएशन के चुनिंदा ड्रॉप-इन (बिना बुक किए) प्रोग्रामों तक मुफ्त पहुंच होगी, इनमें शामिल हैं, तैराकी, स्केटिंग और चुनिंदा स्पोर्ट्स।

सिटी के पास, इस पायलट प्रोग्राम के द्वारा, 2,000 एक्सप्लोर ब्रैम्पटन यूथ पास उपलब्ध हैं। अतिसंवेदनशील युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पायलट प्रोग्राम का उद्देश्य, सक्रिय जीवनशैली और स्वस्थ आदतों की नींव रखते हुए, युवाओं को ब्रैम्पटन ट्रांज़िट और ब्रैम्पटन में मौजूद रेक्रिएशन फैसिलिटीज का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

आवेदन, अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। [एक्सप्लोर ब्रैम्पटन यूथ पास के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन जमा करने के लिए यहां क्लिक करें \(Click here to learn more about the Explore Brampton Youth Pass and submit an application\)](#)।

हवाले

“हम, गर्मी 2022 के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के पहले एक्सप्लोर ब्रैम्पटन यूथ पास की शुरुआत करके उत्साहित हैं। ब्रैम्पटन, कॅनेडा में सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक है, जहां प्रीमियर ट्रांज़िट और रेक्रिएशन फैसिलिटीज हैं, और मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि इस पास का लाभ उठाएं और सुरक्षित और अधिक किफायती गर्मी का आनंद लें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर होने के साथ-साथ अवसरों का शहर और ग्रीन सिटी है। हमारे युवा, हमारे आने वाले कल के लीडर हैं और हम लगातार, ब्रैम्पटन के युवाओं की विविध और जोशीली कम्युनिटी को स्वस्थ और सक्रिय रहने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जैसे एक्सप्लोर ब्रैम्पटन यूथ पास। यह हमारे शहर में युवाओं के लिए मौजूद पहलकदमियों में एक बड़ी उपलब्धि है!”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का एक्सप्लोर ब्रैम्पटन यूथ पास, हमारे शहर के युवाओं के लिए हमारे लगातार समर्पण को दर्शाता है। सिटी को, पिछले कुछ वर्षों में तीन बार, युवाओं के लिए वृद्धि और विकास के अवसरों के लिए इसकी शानदार प्रतिबद्धता हेतु सम्मानित किए जाने और प्ले वर्क्स के द्वारा, प्लैटिनम स्टेट्स यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी पदवी मिलने पर गर्व है, जो पार्क्स एंड रेक्रिएशन ओनटैरियो के द्वारा हिमायत वाला प्रोग्राम है।”

- *शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी, हमारे शहर में ब्रैम्पटन के युवाओं की वृद्धि और विकास की हिमायत के लिए उन्हें शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन रहने, काम करने और खेलने के लिए एक शानदार जगह है और हम हमारे युवाओं के संपन्न होने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण काम करना जारी रखेंगे।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca